

This question paper contains 7 printed pages]

2851

B.A. (II Year) EXAMINATION, 2017

PHYSICAL EDUCATION

Paper I

(Anatomy and Physiology of Exercise)

Time allowed : Three Hours

Maximum Marks : 60

Part A (खण्ड 'अ') [Marks : 20]

Answer all questions (50 words each).

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पचास शब्दों से अधिक न हो । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

Part B (खण्ड 'ब') [Marks : 20]

Answer five questions in all (250 words each),

selecting one question from each Unit.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

P.T.O.

Answer any two questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

Part A (खण्ड 'अ')

1. Answer All questions :

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

Unit I (इकाइ I)

- (i) What do you mean by Cell ?

कोशिका से आप क्या समझते हैं ?

- (ii) Give basic types of systems.

तंत्र (संस्थान) के बारे में बताइए ।

Unit II (इकाइ II)

- (iii) Write the functions of bones.

अस्थियों के कार्य लिखिए ।

(iv) Write types of joints with example.

जोड़ के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए।

Unit III (इकाई III)

(v) Write meaning of respiration.

श्वसन तंत्र का अर्थ लिखिए।

(vi) Define Blood.

रक्त को समझाइए।

Unit IV (इकाई IV)

(vii) Define blood clotting.

रक्त का थक्का जमना समझाइए।

(viii) Define stomach.

आमाशय को समझाइए।

Unit V (इकाई V)

(ix) What is second wind ?

द्वितीयक वायु क्या है ?

(x) Define warming-up.

वार्म-अप को समझाइए ।

Part B (खण्ड 'ब')

Unit I (इकाई I)

2. Describe concept of Physiology.

शरीरक्रियाविज्ञान की अवधारणा बताइए ।

3. Explain cell and tissues.

कोशिका व ऊतक को समझाइए ।

Unit II (इकाई II)

4. Explain general features of Scapula and Femur.

स्कैपुला व फीमर की सामान्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।

5. Describe skeletal muscles.

कंकाल मांसपेशियों का वर्णन कीजिए ।

Unit III (इकाई III)

6. Describe Nervous System.

तंत्रिका तंत्र को समझाइए ।

7. Describe Liver Gland.

यकृत ग्रंथि को समझाइए ।

Unit IV (इकाई IV)

8. Explain the structure of Heart.

हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए ।

9. What is function of Heart and how does it regulate ?

हृदय के कार्य व यह कैसे संचालित होता है, बताइए ।

Unit V (इकाई V)

10. Explain effect of exercise on respiratory system.

श्वसन तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव को समझाइए ।

भार-नियंत्रण का विस्तृत वर्णन कीजिए ।

Part C (खण्ड 'स')

Unit I (इकाई I)

12. Explain importance of anatomy and physiology in the field of physical education and sports.

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में शरीर-रचना व शरीरक्रियाविज्ञान के महत्व को समझाइए ।

Unit II (इकाई II)

13. Explain various types of muscles in detail.

मांसपेशियों के विभिन्न प्रकारों को बताइए ।

Unit III (इकाई III)

14. Write a note on digestive system with diagram of digestive system.

पाचन तंत्र पर लेख लिखिए व इसका नामांकित चित्र बनाइए ।

Unit IV (इकाई IV)

15. Write the pumping action of Heart.

हृदय के धड़कने की प्रक्रिया को समझाइए ।

Unit V (इकाई V)

16. Describe obesity.

स्थूलता का विस्तृत वर्णन कीजिए ।